

विशेष रिपोर्ट

बेस मेटल

जुलाई 2021




तांबा • निकल • लेड • जिंक • एल्युमीनियम




Moneywise. Be wise.

जून 2021 में बेस मेटल ने अपने-अपने फंडामेंटल के आधार पर मिलजुल कारोबार किया। तांबे की कीमतों में सभी एक्सचेंजों में 7% से अधिक की गिरावट हुई और मजबूत डॉलर और शीर्ष उपभोक्ता चीन द्वारा तांबे की कीमतों में तेजी को रोकने के प्रयासों के दबाव में मार्च 2020 के बाद से सबसे कम तिमाही बढ़त दर्ज किया। ऑटोरियो में वेले की सडबरी खदान में हड़ताल की कार्रवाई और बैटरी-ग्रेड निकल की उच्च मांग के कारण बाजार में कम आपूर्ति के कारण निकल की कीमतों में पूरे सभी एक्सचेंजों में लगभग 3.5% दर्ज की गई। कुछ दबाव चीन की ओर से आया है क्योंकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ने वस्तुओं की कीमतों में हालिया उछाल को नियंत्रित करने की अपने वादे के तहत सरकारी भंडार से तांबा, एल्युमीनियम और जिंक जारी किया है। एल्युमीनियम को बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिला है क्योंकि चीन में पर्यावरणीय प्रतिबंध से आपूर्ति पर दबाव जारी रहेगा।

चीन ने उम्मीद जताई कि वह अपनी अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए मौद्रिक नीति को अधिक आसान बना सकता है, जिसे बाजार ने दुनिया के शीर्ष धातु उपभोक्ता में कमजोरी के संकेत के रूप में देखा है। चीन के केंद्रीय बैंक ने अपने आरआरआर (आरक्षित आवश्यकता अनुपात) में कटौती करते हुए बाजार को चिंता में डाल दिया, क्योंकि इससे पता चलता है कि वे धीमी विकास दर को गति देने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के बैंकों ने जून में नए युआन ऋण को बढ़ाकर 2.12 ट्रिलियन युआन (327 बिलियन डॉलर) कर दिया है जो मई में 1.5 ट्रिलियन युआन था, जबकि कुल सामाजिक वित्तपोषण, धातु बाजारों में व्यापक रूप से देखा जाने वाला मापदंड, 1.92 ट्रिलियन युआन से बढ़कर 3.67 ट्रिलियन युआन हो गया। कई देशों में कोविड-19 के अत्यधिक-संक्रामक डेल्टा संस्करण के तेजी से प्रसार के कारण चिंता बढ़ी है कि वैश्विक आर्थिक रिकवरी पटरी से उतर सकती है, जिससे धातुओं की मांग की अनुमान से कम हो सकती है।



स्रोत: एसएमसी रिसर्च एवं रॉयटर्स



स्रोत: एसएमसी रिसर्च एवं रॉयटर्स


मेटलडेक्स एमसीएक्स का साप्ताहिक चार्ट



स्रोत: रॉयटर्स

एमसीएक्स प्लेटफॉर्म पर मेटलडेक्स पिछले सप्ताह थोड़ा बढ़कर 15358 पर बंद हुआ है। पिछले कुछ हफ्तों में मेटलडेक्स का कारोबार 14500 से 15500 के बीच हुआ है। अब तत्काल रेजिस्टेंस 15450 के आसपास देखा जाता है और सपोर्ट 14800 के आसपास है। यदि कीमत 15450 से ऊपर बनी रहती है तो बहुत जल्द 15750/16000 की ओर तेजी देखी जा सकती है। 14800 से नीचे बने रहने पर 14550-14200 की ओर नीचे की ओर बढ़ सकता है। कुल मिलाकर इंडेक्स के अपने समर्थन स्तर से ऊपर ही रहने की उम्मीद है।

- आपूर्ति को लेकर चिंता के कारण वैश्विक स्तर पर निकल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि ओंटारियो में वेले की सडबरी खदान में हड़ताल की कार्रवाई क्षेत्रीय पेलेट उपलब्धता को प्रभावित करती है और ब्रिकेट्स के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, जबकि इंडोनेशिया में कोविड -19 लॉकडाउन को लेकर चिंता के कारण एलएमई में तीन महीने के कॉन्ट्रैक्ट की कीमतें 25 फरवरी के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है।
- इंडोनेशिया निकल पिग आयरन, फेरोनिकल स्मेल्टरों, को प्रतिबंधित करने की योजना बना रहा है
- वैश्विक स्तर पर निकल की मांग 2021 में 9.2% बढ़कर 2.58 मिलियन टन हो गई है, जबकि आपूर्ति 5.8% बढ़कर 2.638 मिलियन टन होने की उम्मीद है।
- सुमितोमो मेटल का मानना है कि चीन में इलेक्ट्रिक वाहनों की मजबूत बिक्री के कारण 2021 में बैटरी के उपयोग के लिए वैश्विक स्तर पर निकल की मांग में 18% की वृद्धि होगी।
- अंतर्राष्ट्रीय निकल अध्ययन समूह के अनुसार इस साल के पहले चार महीनों के दौरान, वैश्विक स्तर पर निकल बाजार में 34,900 टन की कमी देखी गई है।
- जापान में निकल की मांग 15.7% बढ़कर 167400 टन होने का अनुमान है, जबकि आपूर्ति 2.4% गिरकर 165800 टन रहने का अनुमान है।
- वाहन निर्माताओं की बढ़ती मांग के कारण धातु की कीमतों को समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग की ओर से अधिक मांग हुई है।
- एलएमई के निकल के भंडार में हालिया गिरावट बैटरी में प्रयुक्त धातु की बढ़ती मांग को दर्शाती है। पिछले दो महीनों में स्टॉक में 30,000 टन से अधिक की गिरावट हुई है।




एमसीएक्स में निकल का साप्ताहिक चार्ट



एमसीएक्स प्लेटफॉर्म पर निकल वायदा पिछले सप्ताह 1404.30 पर बंद हुआ है। वर्तमान में कीमतें 50 ईएमए स्तर 1325 से और 200 ईएमए स्तर 1250 से ऊपर कारोबार कर रही हैं। साप्ताहिक ऑसिलेटर एमएसीडी 1330 की रेजिस्टेंस रेखा से ऊपर कारोबार कर रहा है, जो तेजी के रूझान वाले क्रॉसओवर को देख रहा है। काउंटर में खरीदारी फिर से देखी जा सकती है यदि यह 1400 के स्तर से ऊपर कारोबार करना जारी रखता है, जो काउंटर को क्रमशः 1450/1480 की ओर जा सकता है। यदि यह 1350 स्तर से नीचे टूटता है और अल्पावधि आधार में 1270/1240 के स्तर की ओर नीचे की ओर बढ़ सकता है। कुल मिलाकर निकल की कीमतों के अपने सपोर्ट स्तर से और ऊपर जाने की उम्मीद है।

- एमसीएक्स में लेड की कीमतों में 3.5% से अधिक की बढ़ोतरी हुई, जबकि एलएआई में लगभग 5% से अधिक की और एसएचएफई में कीमतों में लगभग 1.25% की वृद्धि हुई।
- इस साल लेड बैटरियों की वैश्विक मांग में उछाल दर्ज की गई है क्योंकि कोविड-19 महामारी के बाद अधिक लोग अपनी कारों के साथ सड़कों पर लौट आए हैं। वुड मैकेंजी का अनुमान है कि कार बैटरियों की प्रतिस्थापन के लिए लेड की मांग 2020 की तुलना से 5.9% बढ़कर इस साल 6.5 मिलियन टन हो जाएगी, जो महामारी से पहले का स्तर है।
- वैश्विक स्तर पर शिपिंग में देरी के साथ ही मांग में अचानक वृद्धि के कारण बैटरियों की कीमतें अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं।
- वैश्विक स्तर पर लेड की मांग में संयुक्त राज्य अमेरिका की हिस्सेदारी 13% है, लेकिन कोविड-19 लॉकडाउन के अंत तक खपत में वृद्धि हुई है क्योंकि मोटर चालक लेड-एसिड बैटरी को बदलना चाहते हैं जो बिना उपयोग के लंबे समय तक बंद रहने के बाद नष्ट हो गई हैं।
- मजबूत मांग और सप्लाई में कमी के कारण लंदन मेटल एक्सचेंज (एलएआई) के साथ पंजीकृत गोदामों के भंडार में भी कमी दर्ज की गई है, जो लेड के भंडार का दुनिया में सबसे बड़ा एक्सचेंज है। एलएआई में लेड का भंडार इस वर्ष की शुरुआत से लगभग आधा होकर 69,575 टन रह गया है। इसमें से लगभग 30% लेड को भंडार से निकाले जाने का इंतजार है। 49,050 टन का बचा हुआ स्टॉक पिछले साल जुलाई के बाद से सबसे कम है।




स्रोत: किटको मेटल

एमसीएक्स में लेड का साप्ताहिक चार्ट



एमसीएक्स प्लेटफॉर्म पर लेड वायदा पिछले हफ्ते 179.85 पर बंद हुआ है। वर्तमान में कीमतें 18 दिनों के ईएमए स्तरों 174 से ऊपर कारोबार कर रही हैं। मोमेंटम ऑसिलेटर स्टोचैस्टिक (14,3,3) अब सकारात्मक विचलन देख रहा है और छोटी से मध्यम अवधि के लिए तेजी का रुझान भी प्रदान कर रहा है। 50 दिनों का ईएमए उच्च स्तर पर बना हुआ है जो छोटी अवधि के आधार पर खरीदारी का संकेत देता है। इसलिए कुल मिलाकर लेड की कीमतें अपने सपोर्ट स्तरों से ऊपर जाने की उम्मीद कर रही है। अब 182 पर महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस देखा जा रहा है, इस स्तर से ऊपर स्थायी कारोबार करने पर इस महीने में 190/200 की ओर तेजी देखी जा सकती है और यदि कीमतें 168 के स्तर के सपोर्ट स्तर से नीचे बनी रहती हैं तो 164 एवं 160 की ओर क्रमशः नीचे तक जा सकती है।

- पिछले महीने एल्युमीनियम की कीमतें एलएमई पर लगभग 5% और एमसीएक्स पर लगभग 2% की अच्छी बढ़त दर्ज करने में कामयाब हुईं लेकिन एसएचएफई पर बढ़त दर्ज करने में असफल रही।
- जून में चीन के कच्चे एल्युमीनियम और एल्युमीनियम उत्पादों का निर्यात 454,397 टन हुआ है। यह महीने-दर-महीने 3.5% और साल-दर-साल 28.3% अधिक है। वर्ष की पहली छमाही में कच्चे एल्युमीनियम और एल्युमीनियम उत्पादों का निर्यात 10.7% बढ़कर 2.62 मिलियन टन हो गया है।
- चीन ने जून में 3.22 मिलियन टन एल्युमीनियम का उत्पादन किया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.09% अधिक है। जनवरी से जून तक कुल उत्पादन 19.47 मिलियन मिलियन टन रहा, जो वर्ष-दर-वर्ष 8.1% की वृद्धि है। जुलाई की शुरुआत में चीन की ऑपरेटिंग एल्युमीनियम क्षमता 38.88 मिलियन टन/वर्ष थी, जबकि मौजूदा क्षमता 43.8 मिलियन टन / वर्ष है जिससे ऑपरेटिंग दर 88.8% है।
- एलएमई की नवीनतम क्यू रिपोर्ट के अनुसार, पोर्ट क्लैंग, मलेशिया में इस्तिमक के लंदन मेटल एक्सचेंज के पंजीकृत गोदामों में एल्युमीनियम की डिलीवरी के लिए प्रतीक्षा अवधि जून के अंत में 168 दिन की थी।
- एल्युमीनियम के निर्यात पर कर लगाने की रूस की योजना ने यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में उपभोक्ताओं के लिए हाजिर बाजार लागत में वृद्धि को बढ़ावा दिया है।
- विशेष रूप से चीन से आयातित सामग्रियों और प्रौद्योगिकी पर निर्भरता को कम करने के लिए एक अभियान के तहत भारत लिथियम के बजाय एल्युमीनियम का उपयोग करने वाली बैटरी तकनीक में निवेश करने के लिए बढ़ावा दे रहा है। दुनिया में एल्युमीनियम का दूसरा सबसे बड़ा स्मेल्टर बनने के लिए देश ने पिछले कुछ वर्षों में एल्युमीनियम के उत्पादन में भारी निवेश किया है।




एमसीएक्स में एल्युमीनियम का साप्ताहिक चार्ट



एमसीएक्स प्लेटफॉर्म पर एल्युमीनियम वायदा पिछले हफ्ते थोड़ा नीचे 198 पर बंद हुआ। पिछले कुछ महीनों से, कीमतों में बढ़त दर्ज की गई है और कीमतें 160 के सपोर्ट स्तर से 206.50 के स्तर पर पहुंच गईं। लेकिन पिछले हफ्ते 206.50 से 50% रिट्रेसमेंट के साथ 183.10 तक लुढ़क गईं। अब कीमतें 18 दिनों के मूविंग एवरेज 185.00 से ऊपर कारोबार कर रही हैं। 190 का छोटी से मध्यम अवधि का चैनल रेंजिस्टेंस पहले ही टूट चुका है और अब 18 दिनों के मूविंग एवरेज 195 के स्तर से ऊपर है। अब अगला तत्काल रेंजिस्टेंस 202.50 पर है, फिर 206.50 है और 202.50 के स्तर से ऊपर बने रहने की स्थिति में 206.50/215 की ओर अच्छी बढ़त देखी जा सकती है। यदि यह 188 की तत्काल सपोर्ट स्तर से नीचे टूटती है तो यह क्रमशः 183/175 की ओर नीचे की ओर बढ़ सकती है। कुल मिलाकर एल्युमीनियम की कीमतों के अपने सपोर्ट स्तर से और ऊपर जाने की उम्मीद है। इसलिए हम मौजूदा माह में गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह देते हैं।

- जून में, एलएमई में जिंक की कीमतों में 3% से अधिक और एसएचएफई में 4% से अधिक की गिरावट हुई, लेकिन एमसीएक्स पर किसी तरह से बढ़त के साथ बंद होने में सफल रही।
- इस साल के शेष दिनों में सरप्लस में गिरावट, स्मेल्टिंग सहित आपूर्ति में बाधा, चीन की ओर से मांग और विश्व अर्थव्यवस्था में सुधार के कारण वैश्विक बाजार में जिंक की कीमतों में तेजी बरकरार रहने की उम्मीद है।
- अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जिंक की मांग बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि एशियाई बाजारों और संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक आंकड़ों में सुधार की रिपोर्ट के बाद खनन कार्य और रिफाईंड जिंक के उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद है।
- खनन कंपनी सेंट्रल एशिया मेटल्स पीएलसी ने कहा है कि जून तक तीन महीनों में जिंक उत्पादन तिमाही-दर-तिमाही 3.4% गिरकर 5,549 मीट्रिक टन रह गया है।
- इंटरनेशनल लेड एंड जिंक स्टडी ग्रुप के अनुसार 2021 के पहले चार महीनों के दौरान वैश्विक स्तर पर जिंक की मांग की तुलना में आपूर्ति 31,000 टन मीट्रिक टन से अधिक हो गई है। इस अवधि के दौरान, खदानों से जिंक का उत्पादन 11.3% बढ़ा।
- इस बीच, रिफाईंड जिंक उत्पादन में 4.5% की वृद्धि हुई। चीन में 'पर्याप्त वृद्धि' के परिणामस्वरूप जिंक का उपयोग भी 10.1% बढ़ गया। लेकिन में चीन में जिंक कंसेन्ट्रेट के आयात में 9.4% की गिरावट हुई है।




एमसीएक्स में जिंक का साप्ताहिक चार्ट



एमसीएक्स प्लेटफॉर्म पर जिंक वायदा पिछले सप्ताह बढ़कर 242.50 पर बंद हुआ है। वर्तमान में कीमतें 200 दिनों के ईएमए स्तर 219.00 से ऊपर और साप्ताहिक स्तर पर बढ़ती रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन स्तर 230 से ऊपर कारोबार कर रही हैं। लंबी अवधि में केवल तेजी का रूझान है और हमने देखा है कि पिछले महीने में कीमतों में थोड़ी गिरावट के बावजूद भी 230 से ऊपर बनी हुई है। यदि कीमतें 226 के स्तर से नीचे बनी रहती है, तो नीचे की ओर 213/207 की ओर लुढ़क सकती है और यदि यह 245 के स्तर से ऊपर रहती है और स्थिर बनी रहती है, तो क्रमशः 257/265 की ओर बढ़ जाएगी।

- तांबे का उपयोग अक्सर वैश्विक आर्थिक स्वास्थ्य के मापक के रूप में किया जाता है। शीर्ष उपभोक्ता चीन, जहां आर्थिक सुधार धीमी होती दिखाई दे रहा है, में मांग की संभावनाओं को लेकर चिंताओं और बढ़ते भंडार के कारण कमजोर सेंटिमेंट से तांबे की कीमतों में सभी एक्सचेंजों में 7% से अधिक की गिरावट हुई।
- चीन के सीमा शुल्क के आंकड़ों के अनुसार जून में चीन के तांबा आयात में लगातार तीसरे महीने गिरावट हुई, क्योंकि उच्च कीमतों और सुस्त मैनुफैक्चरिंग के कारण दुनिया के शीर्ष उपभोक्ता देश में तांबे की मांग पर असर पड़ा।
- सीमा शुल्क के आंकड़ों के अनुसार चीन में कच्चे तांबे और तांबे के उत्पादों का आयात पिछले महीने 428,438 टन हुआ है। यह मई में 445,725 टन से 3.9% और जून 2020 में 656,483 टन से 34.7% कम है।
- तांबे के भंडार में बढ़ोतरी कमजोर मांग का संकेत है। एलएमई के पंजीकृत गोदामों में तांबे का स्टॉक पिछले तीन हफ्तों में लगभग 40% बढ़कर 219,175 टन हो गया है।
- एलएमई में नकद तांबे की कीमतें तीन महीने के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत के मुकाबले 33 डॉलर प्रति टन कम है, जो अधिक सप्लाय की ओर इशारा करता है।
- वैश्विक स्तर पर तांबा चलाने की गतिविधि जून में एक महीने पहले की उछाल के बाद फिसल गई है क्योंकि चीन के संयंत्र रखरखाव के लिए बंद हो गए हैं। रिसर्च हाउस एंटाइक के अनुसार चीन के प्रमुख तांबा स्मेल्टरों ने जून में पिछले महीने की तुलना में 3.6% कम उत्पादन किया है।



स्रोत: किटको मेटल

एमसीएक्स में तांबा का साप्ताहिक चार्ट



स्रोत: रॉयटर्स

एमसीएक्स प्लेटफॉर्म पर तांबा वायदा पिछले सप्ताह थोड़ा बढ़कर 731.75 पर बंद हुआ है। पिछले महीने में नरमी के रूझान वाला एनगल्फिंग पैटर्न देखा गया है और कीमतें 685 के निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। कीमतें 725 के ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर अच्छी तरह से बनी हुई हैं और पिछले महीने गिरावट हुई है। अब तत्काल रेजिस्टेंस 742 पर है। यदि कीमत 742 की तत्काल रेजिस्टेंस से ऊपर बनी रहेगी तो यह 660/640 की ओर बढ़ सकती है और यदि कीमतें 685 के पहले सपोर्ट स्तर से नीचे बनी रहती है, तो निकट भविष्य में नीचे की ओर 660/640 के स्तर की ओर बढ़ सकती है। कुल मिलाकर कमोडिटी के अपने सपोर्ट स्तर से और ऊपर जाने की उम्मीद है।

For any queries, Contact:
Commodity Research Desk
Tel: +91-11-30111000, Ext: 683,684,625,630

SMC Research also available on Reuters

E-mail: smc.care@smcindiaonline.com



Corporate Office:
11/6B, Shanti Chamber,
Pusa Road, New Delhi - 110005
Tel: +91-11-30111000
www.smcindiaonline.com

Mumbai Office:
Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402, 4th Floor,
Graham Firth Steel Compound, Off Western
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon
(East) Mumbai - 400063
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

Kolkata Office:
18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,
5th Floor, Kolkata-700001
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

एसएमसी ग्लोबल सिम्बोरिटीज लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाएँ और संबंधित सेवाएँ करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिम्बोरिटीज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉमिट्टेड नेशनल कर्मांडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कर्मांडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कर्मांडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एमसीएसएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल(CDSL) एवं एनएसडीएल(NSDL)के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मंचेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई(AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिम्बोरिटीज लिमिटेड सेबी (रिसेच एनालिसिस) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसेच एनालिसिस के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिम्बोरिटीज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एथॉरिटी द्वारा सिम्बोरिटीज मार्केट/कर्मांडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसेच एनालिसिस द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री की शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसेच एनालिसिस, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एल्टर द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कर्मांडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय है।

दिसक्लेमर: यह रिसेच रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक को किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सक्कुलेशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉरपोरेट या सत्ता को जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारन्टी नहीं देता है। निवेश की बैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसको (अ)समय-समय पर किसी भी कर्मांडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या बिक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कर्मांडिटीज को खरीद या बिक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कर्मांडिटीज को किसी भी प्रकार के सौतों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।